

This question paper contains 4 printed pages.

B.Sc. (Pt. III)

3173-A-I

Roll No.

Bot. I

104611

B.Sc. (Part-III) Examination, 2018

(Faculty of Science)

[Also Common with Subsidiary Paper of B.Sc. (Hons.) Part-III]

(Three-Year Scheme of 10+2+3 Pattern)

BOTANY

Paper-I

(Plant Morphology and Anatomy)

Time allowed : Three hours

Maximum marks : 33

Answer of all the questions (short answer as well as descriptive) are to be given in the main answer-book only. Answer of short answer type questions must be given in sequential order. Similarly all the parts of one question of descriptive part should be answered at one place in the answer-book. One complete question should not be answered at different place in the answer-book. Write your roll number on question-paper before you start writing answers of questions.

सभी (लघुतरात्मक तथा वर्णनात्मक) प्रश्नों के उत्तर मुच्य उत्तर-पुस्तिका में ही लिखें। लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर प्रश्नों के क्रमानुसार ही हैं। इसी प्रकार किसी भी वर्णनात्मक प्रश्न के अन्तर्गत पूछे गए विभिन्न प्रश्नों के उत्तर उत्तर-पुस्तिका में अलग-अलग स्थानों पर हल करने के बजाय एक ही स्थान पर क्रमानुसार हल करें। प्रश्नों के उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न-पत्र पर रोल नंबर अवश्य लिखें।

All questions are compulsory.

सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं।

I. (i) The lateral roots generally originate in :

- (a) Cork cambium
- (b) Cortex
- (c) Pericycle cells lying against protoxylem
- (d) Endodermal cells lying against protoxylem

पार्श्व जड़ सामान्यतया उत्पन्न होती है :

- (a) कार्क कैंबियम में
- (b) कल्पुट में
- (c) परिरंग कोशिकाएँ जो प्रोटोजाइलम के विस्तर स्थित हो, में
- (d) अन्तश्वचा कोशिकाएँ जो प्रोटोजाइलम के विस्तर स्थित हो, में

(ii) Velamen cells are found in epiphytes

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| (a) below the epidermis | (b) just outside the cortex |
| (c) below the endodermis | (d) just outside the exodermis |

वेलामेन कोशिकाएँ अधिपादणों में मिलती हैं :

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| (a) बाह्यत्वचा के नीचे | (b) कल्पुट के ठीक बाहर |
| (c) अंतश्वचा के नीचे | (d) एक्सोडर्मिस के ठीक बाहर |

(iii) Which of the following give rise to the cork tissue ?

- | | |
|---------------------|----------------|
| (a) Phellogen | (b) Periblem |
| (c) Periderm | (d) Phelloderm |

(1)

P.T.O.

3173-A-I

निम्नलिखित में कौन कोर्क ऊतक बनाता है :

- | | |
|-------------|---------------------|
| (a) फ्लोजन | (b) वल्कुटजन |
| (c) परित्वक | (d) द्वितीयक वल्कुट |

(iv) Intercalary meristem results in :

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| (a) Secondary growth | (b) Apical growth |
| (c) Primary growth | (d) None of the above |

अन्तर्वेशी विभज्योतक के परिणाम से होती है

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| (a) द्वितीयक वृद्धि | (b) अग्रस्थवृद्धि |
| (c) प्राथमिक वृद्धि | (d) इनमें से कोई नहीं |

(v) Sclerenchymatous bundle sheath is present in :

- | | |
|------------|---------------|
| (a) Grass | (b) Mango |
| (c) Banyan | (d) Sunflower |

दृढ़तक बंडल आच्छद पाये जाते हैं :

- | | |
|---------------|-----------------|
| (a) धान में | (b) आम में |
| (c) बरंगद में | (d) सूखमुखी में |

(vi) The waxy substance associated with the wall of cork cells is :

- | | |
|-------------------|-------------|
| (a) Cutin | (b) Lignin |
| (c) Hemicellulose | (d) Suberin |

कोर्क कोशिकाओं की भित्ति से जुड़ा हुआ मोमी पदार्थ है :

- | | |
|-------------------|-------------|
| (a) क्यूटिन | (b) लिनिन |
| (c) हेमिसेल्युलोस | (d) सुबेरिन |

(vii) In a modular system leaf, node, internode and associated buds represent :

- | | |
|------------|----------------|
| (a) Axis | (b) Metamer |
| (c) Module | (d) Sub-Module |

एक मॉड्यूलर तंत्र में पत्ती, पर्णसंधि, पर्व तथा संबंधित कलिकाएं प्रदर्शित करती हैं :

- | | |
|-------------|----------------|
| (a) अक्ष | (b) मेटामर |
| (c) मॉड्यूल | (d) उप-मॉड्यूल |

(viii) The Histogen theory to explain the shoot apical organisation was proposed by :

- | | |
|-------------|--------------|
| (a) Nageli | (b) Hanstein |
| (c) Schmidt | (d) Foster |

ऊतकजन सिद्धान्त जो प्ररोहशीर्ष संगठन को समझाता है, प्रतिपादित किया था :

- | | |
|--------------|------------------|
| (a) नौली ने | (b) हैन्स्टीन ने |
| (c) शिप्ट ने | (d) फॉस्टर ने |

(ix) Interfascicular cambium arises from :

- | | |
|---------------|--------------------|
| (a) Xylem | (b) Medullary rays |
| (c) Pericycle | (d) Phloem |

अन्तरापूलीय एवं उत्पन्न होती है :

- | | |
|---------------|------------------------|
| (a) जाइलम से | (b) मज्जा रिम्फों से |
| (c) परिरंप से | (d) पोषवाह / फ्लोएम से |
- (x) The only living element in xylem tissue is :
- | | |
|------------------|----------------------|
| (a) Tracheids | (b) Vessels |
| (c) Xylem fibres | (d) Xylem Parenchyma |

जाइलम में केवल जीवित रहने वाला तत्व है :

- | | |
|----------------|------------------|
| (a) वाहिनिकाएँ | (b) वाहिकाएँ |
| (c) जाइलम रेशे | (d) जाइलम मृदूलक |

(xi) Write two main types of sclerenchyma.

दो प्रमुख प्रकार के दृढ़ोत्तरी तंतु के नाम लिखें।

(xii) If root cap is injured which cells may be helpful in its regeneration ?

यदि मूल-गोप अपकृत (इन्जुरी) होती है तो कौन-सी कोशिकाएँ उसको पुनः उत्पन्न करने में सहायक हैं ?

(xiii) Define Phyllotaxy.

पर्ण विन्यास को परिभाषित कीजिए।

(xiv) Write two economic benefits of Micro propagation.

सूख प्रवर्धन से होने वाले दो आर्थिक लाभ लिखें।

(xv) What is aril ?

एरिल क्या है ?

(xvi) Which plant hormone accelerates abscission ?

कौन-सा पादप हीपोन विलगन को बढ़ाता है ?

(xvii) Write two angiospermic plants which possess interxylary phloem.

अन्तरजाइलमी फ्लोएम रखने वाले दो आवृतबीजी पादपों के नाम लिखें।

(xviii) Name a monocot plant in which secondary growth is seen.

ऐसे एकबीजपत्री पादप का नाम बताइए जिसमें द्वितीयक वृद्धि पायी जाती है।

(18×½= 9)

Unit-I (इकाई-I)

2. What are complex tissues ? Explain it with reference of xylem with suitable diagrams.

1+4+1=6

जटिल ऊतक क्या है ? जाइलम के संदर्भ में इसे संचित समझायें।

or अथवा

Write short notes on :

- (i) Simple tissue
- (ii) Canopy architecture

3+3=6

निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये :

- (i) सरल ऊतक
- (ii) वितान संरचना

(3)

P.T.O.

**Unit-II / इकाई-II**

3. What are the various reasons of anomalous secondary growth in dicot? Describe anomalous secondary growth in leptadenia with the help of diagrams. 3+3=6

द्विबीजपत्री में असामान्य द्वितीयक वृद्धि का क्या कारण है ? लेप्टाडिनिया में असामान्य द्वितीयक वृद्धि का सवित्र वर्णन कीजिए।

or अथवा

Write short notes on :

- (i) Sap wood and heart wood
- (ii) The shoot apical meristem and its histological organization. 3+3=6

निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :

- (i) रसकाढ़ तथा अन्तः काढ़
- (ii) प्रोत्साहनीय विभज्योतक तथा उसके उत्तरीय संगठन

Unit-III (इकाई-III)

4. With the help of diagram, describe various type of stomata found in dicot and monocot leaf. 3+3=6

द्विबीजपत्री तथा एक्लीजपत्री पर्ण में विभिन्न प्रकार के रन्धों का सवित्र वर्णन कीजिए।

or अथवा

Write short notes on :

- (i) Root-Microbe interaction
- (ii) Senescence and Abscission 3+3=6

निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :

- (i) भूल की सूखमजीबीयों के साथ अन्योन्य क्रिया
- (ii) जीर्णता एवं विलगन

Unit-IV (इकाई-IV)

5. What do you understand by suspended animation and its significance ? 4½ + 1½ = 6

निलंबित सजीवन से आप क्या समझते हैं तथा इसका महत्व समझाइए।

or अथवा

Write short notes on :

- (i) Grafting
- (ii) Anatomy of monocot and dicot seed. 3+3=6

निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :

- (i) क्लिम बोधना
- (ii) एक्लीजपत्री तथा द्विबीजपत्री बीज की आन्तरिक संरचना।

